



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 43] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 27—नवम्बर 2, 2007 (कार्तिक 5, 1929)
No. 43] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 27—NOVEMBER 2, 2007 (KARTIKA 5, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1029	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1065	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	3	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	5475
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं ...	1619	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	717
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*	भाग III—खण्ड-4—विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	11453
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	675
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्णक	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*		

CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1029	and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).....	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.....	1065	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	3	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence.....	1619	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	5475
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs.....	717
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners.....	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills.....	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies.....	11453
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).....	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	675
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi.....	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]
 [Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 11 अक्टूबर 2007

सं. पीएफजी (427)/ 1983-प्रशा. II--केन्द्र सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209क की उपधारा (1) के खण्ड (ii) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा श्री एस. एन. मिश्रा, उप-निदेशक (निरीक्षण), क्षेत्रीय निदेशक का कार्यालय (पश्चिमी क्षेत्र), कारपोरेट कार्य मंत्रालय, मुम्बई, को उक्त धारा 209-क के उद्देश्यों के लिए प्राधिकृत करती है।

जे. एस. गुप्ता
अवर सचिव

सं. पीएफजी (450)/ 1985-प्रशा. II--केन्द्र सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209क की उपधारा (1) के खण्ड (ii) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा श्री बी. सेल्वराज, उप-निदेशक (निरीक्षण), क्षेत्रीय निदेशक का कार्यालय (दक्षिणी क्षेत्र), कारपोरेट कार्य मंत्रालय, चेन्नई, को उक्त धारा 209-क के उद्देश्यों के लिए प्राधिकृत करती है।

जे. एस. गुप्ता
अवर सचिव

सं. पीएफजी (537)/ 1996-प्रशा. II--केन्द्र सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209क की उपधारा (1) के खण्ड (ii) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा श्री एस. एम. सेनडेन, सहायक निदेशक (निरीक्षण), क्षेत्रीय निदेशक का कार्यालय (पश्चिमी क्षेत्र), कारपोरेट कार्य मंत्रालय, मुम्बई, को उक्त धारा 209-क के उद्देश्यों के लिए प्राधिकृत करती है।

जे. एस. गुप्ता
अवर सचिव

सं. पीएफजी (604)/ 1999-प्रशा. II--केन्द्र सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209क की उपधारा (1) के

खण्ड (ii) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा श्री एस. पी. चुग, सहायक निदेशक (निरीक्षण), क्षेत्रीय निदेशक का कार्यालय (पश्चिमी क्षेत्र), कारपोरेट कार्य मंत्रालय, मुम्बई, को उक्त धारा 209-क के उद्देश्यों के लिए प्राधिकृत करती है।

जे. एस. गुप्ता
अवर सचिव

सं. पीएफजी (611)/ 1999-प्रशा. II--केन्द्र सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209क की उपधारा (1) के खण्ड (ii) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा श्रीमती ए. बी. अठावले, सहायक निदेशक (निरीक्षण), क्षेत्रीय निदेशक का कार्यालय (पश्चिमी क्षेत्र), कारपोरेट कार्य मंत्रालय, मुम्बई, को उक्त धारा 209-क के उद्देश्यों के लिए प्राधिकृत करती है।

जे. एस. गुप्ता
अवर सचिव

सं. पीएफजी (656)/2002-प्रशा. II--केन्द्र सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209क की उपधारा (1) के खण्ड (ii) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा श्रीमती एस. मीनाक्षी, सहायक निदेशक (निरीक्षण), क्षेत्रीय निदेशक का कार्यालय (दक्षिणी क्षेत्र), कारपोरेट कार्य मंत्रालय, चेन्नई, को उक्त धारा 209-क के उद्देश्यों के लिए प्राधिकृत करती है।

जे. एस. गुप्ता
अवर सचिव

सं. पीएफजी (661)/2002-प्रशा. II--केन्द्र सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209क की उपधारा (1) के खण्ड (ii) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा श्री एम. आर. दास, सहायक निदेशक (निरीक्षण), क्षेत्रीय निदेशक का कार्यालय (पूर्वी क्षेत्र), कारपोरेट कार्य मंत्रालय, कोलकाता, को उक्त धारा 209-क के उद्देश्यों के लिए प्राधिकृत करती है।

जे. एस. गुप्ता
अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 27 सितम्बर 2007

सं. एफ. 5-21/2007-ई.ई.-5 (एम.डी.एम.)--प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषाहार सहायता के राष्ट्रीय कार्यक्रम में एक राष्ट्रीय संचालन-सह-प्रबोधन समिति की स्थापना की परिकल्पना निम्नलिखित उद्देश्य से की गई है :--

- (i) केंद्र और राज्य सरकारों को नीतिगत सलाह देना
- (ii) कार्यान्वयन एजेंसियों को मार्गदर्शन
- (iii) कार्यक्रम के कार्यान्वयन को मानीटर करना, उसके प्रभाव का मूल्यांकन करना तथा उपचारात्मक कदम उठाना
- (iv) स्वतंत्र मानीटरिंग/मूल्यांकन एजेंसियों की रिपोर्टों पर कार्रवाई करना
- (v) संबद्ध विभागों, एजेंसियों (उदाहरणार्थ भारतीय खाद्य निगम) तथा योजनाओं में समन्वय तथा अंतरण स्थापित करना
- (vi) कार्यक्रम के लिए सामुदायिक सहयोग जुटाना और सरकारी-निजी सहभागिता बढ़ाना
- (vii) राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम से जुड़े प्रशिक्षण, क्षमता-निर्माण, मानीटरन तथा मूल्यांकन और शोध कार्य को करने के लिए स्वयंसेवी एजेंसियों और अन्य उपयुक्त संस्थाओं की पहचान करना

2. दिनांक 20 दिसंबर, 2004 की अधिसूचना सं. एफ. 5-29/2004-ई.ई.-5-एम.डी.एम. के जरिए गठित राष्ट्रीय मानीटरन-सह-परिचालन समिति का निम्नलिखित सदस्यता के साथ एतद्वारा पुनर्गठन किया जाता है:--

- | | |
|---|---------|
| (i) सचिव, भारत सरकार स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय | अध्यक्ष |
| (ii) वित्त सलाहकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय | सदस्य |
| (iii) प्रधान सलाहकार/सलाहकार, योजना आयोग | सदस्य |
| (iv) निदेशक, एन.सी.ई.आर.टी. | सदस्य |
| (v) निदेशक, नूपा | सदस्य |
| (vi) प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम | सदस्य |
| (vii) निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि (जो संबद्ध सचिवों द्वारा नामित होंगे और संयुक्त सचिव के रैंक से नीचे नहीं होंगे) : | सदस्य |
| 1. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | |
| 2. खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण | |
| 3. महिला एवं बाल विकास | |
| 4. ग्रामीण विकास | |
| 5. शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन | |
| 6. युवा कार्यक्रम और खेल | |

(viii) अध्यक्ष द्वारा नामित तेरह व्यक्ति, अर्थात् :

पोषण क्षेत्र से जुड़े दो विशेषज्ञ

चार व्यक्ति जिनमें कम-से-कम दो ऐसी महिलाएँ हों जिन्होंने पोषण, बाल कल्याण, सामुदायिक/महिलाओं के जुटाव, स्कूली शिक्षा, बाल स्वास्थ्य, स्कूली मध्याह्न भोजन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया/उपलब्धि हासिल की हो।

पाँच राज्यों के प्रतिनिधि (प्रत्येक क्षेत्र से एक)

विशिष्ट सेवा रिकॉर्ड वाले दो प्राथमिक स्कूल शिक्षक (जिनमें कम-से-कम एक महिला हो)

1. निदेशक, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद
2. निदेशक, भारतीय पोषण संस्थान, नई दिल्ली
3. डॉ. रमा बाहु, सामुदायिक चिकित्सा एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
4. डॉ. टी. सुंदरमन, कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र, एन.एच.आर.एम., नई दिल्ली
5. डॉ. वेंकटेश आत्रेय, एम.एच. स्वामीनाथन प्रतिष्ठान, चेन्नई
6. प्रो. एस. आनंदलक्ष्मी, (सेवानिवृत्त) निदेशक, लेडी इरविन कॉलेज, ए-204, मानसरोवर, 19, तृतीय सी-वार्ड रोड, बाल्मीकि नगर, चेन्नई-600041
- निम्नलिखित राज्यों के मध्याह्न भोजन योजना के लिए राज्य नोडल विभाग के प्रधान सचिव/सचिव :
7. उत्तर प्रदेश
8. पश्चिम बंगाल
9. केरल
10. मिजोरम
11. महाराष्ट्र
12. श्रीमती सुनीला मसीह, विज्ञान शिक्षिका, मित्रा जी.एच.एस. कन्या विद्यालय, सुहागपुर होशंगाबाद-461771, मध्य प्रदेश
13. श्रीमती ए. हेमवती, प्रधान अध्यापिका, गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल, वीराखेली 2-ए बहादुर साहेब स्ट्रीट, पुदुचेरी-605001

उल्लिखित सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष अथवा उनके उत्तराधिकारियों के नामांकन तक, जो भी बाद में हो, के लिए होगा।

(ix) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में मध्याह्न सदस्य सचिव भोजन योजना के प्रभारी संयुक्त सचिव

3. राष्ट्रीय संचालन-सह-मानीटरन समिति की प्रत्येक छमाही में कम-से-कम एक बैठक होगी।

4. राष्ट्रीय संचालन-सह-मानीटरन समिति को सचिवालयी सहायता स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के प्रारंभिक शिक्षा ब्यूरो-I द्वारा प्रदान की जाएगी।

के. रवि रामचंद्रन
उप सचिव

श्रम और रोजगार मंत्रालय
रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. डीजीईटी-19(5)/2006-सीडी-I--श्रम और रोजगार मंत्रालय (रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय), नई दिल्ली के दिनांक 21/24 अगस्त, 1956 के संकल्प संख्या टी आर/ईपी-24/56 के आंशिक संशोधन (23 अक्टूबर, 2007 तक संशोधित) में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (पैरा-5) में इसके आगे निम्न प्रकार संशोधन दिनांक 24.10.2007 से किया जाता है :-

परिषद् की संरचना : परिषद् का गठन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा तथा इसके सदस्य निम्नलिखित होंगे :

- | | |
|--|-----------|
| (क) केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्री/
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(स्वतंत्र प्रभार) | अध्यक्ष |
| (ख) सचिव, भारत सरकार,
श्रम और रोजगार मंत्रालय | उपाध्यक्ष |
| (ग) रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशक/
संयुक्त सचिव, श्रम और रोजगार
मंत्रालय | सदस्य |
| (घ) वित्त सलाहकार, श्रम और रोजगार
मंत्रालय तथा निम्न का एक प्रतिनिधि : | सदस्य |

(i) माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(ii) सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(iii) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय

(iv) विदेशी भारतीय मामले मंत्रालय

प्रतिनिधि, जहां तक संभव हो तकनीकी अधिकारी होंगे।

(ड.) राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासन प्रत्येक का एक प्रतिनिधि (शिल्पकार प्रशिक्षण योजना से सम्बद्ध राज्य निदेशक-आन्ध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू व कश्मीर, उड़ीसा, झारखंड तथा गोवा)।

(च) भारत सरकार द्वारा नियोक्ता संगठन के तीन प्रतिनिधियों को नामित किया जाना है।

(छ) भारत सरकार द्वारा कामगार संगठन के तीन प्रतिनिधियों को नामित किया जाना है।

(ज) भारत सरकार द्वारा व्यावसायिक और विज्ञान निकायों के पांच प्रतिनिधियों को नामित किया जाना है।

(झ) भारत सरकार द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का एक प्रतिनिधि नामित किया जाना है।

(ञ) भारत सरकार द्वारा चार विशेषज्ञों को नामित किया जाना है।

(ट) भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति प्रत्येक का एक प्रतिनिधि नामित किया जाना है।

(ठ) भारत सरकार द्वारा अखिल भारतीय महिला संगठन का एक प्रतिनिधि नामित किया जाना है।

(ड) उप महानिदेशक (शिक्षता प्रशिक्षण), रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय।

(ढ) उप महानिदेशक (प्रशिक्षण), रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय--सदस्य सचिव।

शारदा प्रसाद
महानिदेशक/संयुक्त सचिव

सं. डीजीईटी-19(5)/2006-सीडी--भारत के राजपत्र के भाग-I खण्ड-I, में प्रकाशित दिनांक 21/24 अगस्त, 1956 के संकल्प सं. टीआर/ईपी-24/56 में आंशिक संशोधन करते हुए भारत सरकार के संकल्प के पैरा 5 के उप पैरा (एफ) से (एल) के अनुसरण में तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय (रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय), भारत सरकार की दिनांक 4 जनवरी, 2007 की अधिसूचना सं. डीजीईटी-19(5)/2006-सीडी के

अधिक्रमण में 24.10.2007 से 3 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् में विभिन्न संगठनों, निकायों इत्यादि का प्रतिनिधित्व करने के लिए सम्बद्ध प्राधिकारियों के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को नामित किया गया है :—

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन
1	2	3
1.	कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि	
(i)	सुश्री शोभा मिश्रा उप निदेशक व दल प्रमुख (शिक्षा एवं स्वास्थ्य), फिक्की फेडरेशन हाऊस, तानसेन मार्ग, नई दिल्ली-110001	भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल परिसंघ फिक्की
(ii)	कर्नल एच. एस. सेठी, निदेशक, प्लॉट सं. 249 एफ, उद्योग विहार, फेज-IV, सेक्टर-18 गुडगांव-122015 (हरियाणा)	भारतीय उद्योग महासंघ (सी आई आई)
(iii)	श्री एस. चन्द्रशेखर, प्रबन्ध निदेशक, भोरुका विद्युत निगम लि., हितानन्दा-II, पांचवी मंजिल, 48, लवेल रोड, बंगलुरु-560001	भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग सह मंडल (एसोचम)
2.	कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि	
(i)	श्री सुखदेव प्रसाद मिश्रा, संगठन सचिव (बीएमएस) 3-नवीन मार्केट, कानपुर-208001	भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस)
(ii)	श्री रघुनाथ पाण्डेय, संगठन सचिव, आई एन टी यू सी एवं अध्यक्ष, टाटा कर्मचारी संघ, एच-6-17, फ्लावर मिल रोड, शाकची, जमशेदपुर-831001	राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (आईएनटीयूसी)
(iii)	श्री दीपांकर मुखर्जी, भूतपूर्व सांसद, सचिव (सीआईटीयू), बी टी आर भवन, 13 ए, राऊस एवेन्यू, नई दिल्ली-110002	भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र (सी आई टी यू)
3.	व्यवसायिक व विज्ञ निकायों के प्रतिनिधि	
(i)	डा. एम. आर. प्रसाद, अध्यक्ष एवं प्रमुख (अनुसंधान समन्वय) आई ए एम आर, प्लॉट सं. 25, सेक्टर ए-7, औद्योगिक क्षेत्र, नरेला, दिल्ली-110040	अनुप्रयुक्त जन शक्ति अनुसंधान संस्थान
(ii)	प्रो. आर. जे. चोक्सी, संयुक्त निदेशक, पी एस एस, केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, 131, जोन-II, एम. पी. नगर, भोपाल-462011	राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी)
(iii)	श्री के. ए. एन. प्रसाद, वरिष्ठ निदेशक (प्रशिक्षण), एनएसी कैम्पस, साइबराबाद, कोन्डापुर (पोस्ट), हैदराबाद-500032	भारतीय निर्माण अकादमी (एनएसी), हैदराबाद

1	2	3
	(iv) प्रो. रंजीत सिंह, निदेशक एवं प्रमुख, विनिर्माण प्रक्रिया तथा आटोमेशन इंजीनियरी प्रभाग, नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान, सेक्टर-3, द्वारका, नई दिल्ली-110075	नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान
	(v) डा. संध्या चिंतला, निदेशक-शिक्षा पहल, नेस्कॉम, आई टी सी, काकातिया सुरेशन एवं टावर्स, बेगमपेट, हैदराबाद-500016	नेस्कॉम
	(vi) डा. रजनीश श्रीवास्तव, सलाहकार (शैक्षिक), ए आई सी टी ई, इंदिरा गांधी खेल परिसर, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002	ए आई सी टी ई के प्रतिनिधि
4.	विशेषज्ञ	
	(i) फादर टी. वी. मेथ्यू, निदेशक, डॉन बॉस्को स्व-रोजगार एवं अनुसंधान केन्द्र, हावड़ा, कोलकाता	देश में व्याप्त डॉन बॉस्को व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रतिनिधि
	(ii) श्री प्रसाद हरिचन्द्रन, मकान सं. VI-सी, 13/2, यूनिट-I, भुवनेश्वर-751009 (उड़ीसा)	
	(iii) श्री के. सी. राजेश, प्रगति भवन, सूरनाली रोड, कुन्दापुरा, उडपी जिला, (कर्नाटक)	
	(iv) श्री रमेश मिश्रा, 26/47, बिरहाना रोड, कानपुर-208001, (उत्तर प्रदेश)	
5.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि	
	(i) श्री सुधाकर बाडीगर, पोस्ट-अभीहल, तालुक-अठानी, जिला-बेलगांव (कर्नाटक)	अनुसूचित जाति
	(ii) श्रीमती वेंगसुख शीयन, शिलांग, (मेघालय)	अनुसूचित जनजाति
6.	महिला संगठन के प्रतिनिधि	
	(i) श्रीमती एल. त्रिलोतमा, इम्फाल, (मणिपुर)	

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi, the 11th October 2007

No. PFG(427)/1983-Admn. II.—In exercise of the powers conferred by Clause (ii) of Sub-Section (1) of Section 209A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby authorize Shri S.N. Misra, Deputy Director (Inspection) in the Office of Regional Director (Western Region), Ministry of Corporate Affairs, Mumbai for the purpose of the said section 209-A.

J. S. GUPTA, Under Secretary

No. PFG(450)/1985-Admn. II.—In exercise of the powers conferred by Clause (ii) of Sub-Section (1) of Section 209A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby authorize Shri V. Selvaraj, Deputy Director (Inspection) in the Office of Regional Director (Southern Region), Ministry of Corporate Affairs, Chennai for the purpose of the said section 209-A.

J. S. GUPTA, Under Secretary

No. PFG(537)/1996-Admn. II.—In exercise of the powers conferred by Clause (ii) of Sub-Section (1) of Section 209A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby authorize Shri S. M. Saindane, Assistant Director (Inspection) in the Office of Regional Director (Western Region), Ministry of Corporate Affairs, Mumbai for the purpose of the said section 209-A.

J.S.GUPTA, Under Secretary

No. PFG(604)/1999-Admn. II.—In exercise of the powers conferred by Clause (ii) of Sub-Section (1) of Section 209A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby authorize Shri S. P. Chughra, Assistant Director (Inspection) in the Office of Regional Director (Western Region), Ministry of Corporate Affairs, Mumbai for the purpose of the said section 209-A.

J.S. GUPTA, Under Secretary

No. PFG(611)/1999-Admn. II.—In exercise of the powers conferred by Clause (ii) of Sub-Section (1) of Section 209A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby authorize Smt. A. B. Athavale, Assistant Director (Inspection) in the Office of Regional Director (Western Region), Ministry of Corporate Affairs, Mumbai for the purpose of the said section 209-A.

J.S. GUPTA, Under Secretary

No. PFG(656)/2002-Admn. II.—In exercise of the powers conferred by Clause (ii) of Sub-Section (1) of Section 209A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central

Government hereby authorize Smt. S. Meenakshi, Assistant Director (Inspection) in the Office of Regional Director (Southern Region), Ministry of Corporate Affairs, Chennai for the purpose of the said section 209-A.

J.S. GUPTA, Under Secretary

No. PFG(661)/2002-Admn. II.—In exercise of the powers conferred by Clause (ii) of Sub-Section (1) of Section 209A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby authorize Shri M.R. Das, Assistant Director (Inspection) in the Office of Regional Director (Eastern Region), Ministry of Corporate Affairs, Kolkata for the purpose of the said section 209-A.

J. S. GUPTA, Under Secretary

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION &
LITERACY)

New Delhi-110001, the 27th September 2007

No. F. 5-21/2007-EE. 5 (MDM)—The National Programme of Nutritional Support to Primary Education envisages the establishment of a National Steering-cum-Monitoring Committee (NSMC) to:

- i. Provide policy advice to Central and State Governments
- ii. Guide implementation agencies
- iii. Monitor programme implementation, assess its impact, and take corrective steps
- iv. Take action on reports of independent monitoring/evaluation agencies
- v. Effect coordination and convergence among concerned departments, agencies (e.g. FCI), and schemes
- vi. Mobilize community support and promoting public-private partnership for the programme
- vii. Identify voluntary agencies and other appropriate institutions to undertake training, capacity building, monitoring and evaluation and research connected with the programme at the national level.

2. The National Monitoring-cum-Steering Committee constituted vide Notification No. F. 5-29/2004-EE. 5-MDM dated December 20, 2004, is hereby re-constituted with the following membership:

- | | |
|---|-------------|
| i. Secretary to Government of India
Department of School Education
and Literacy Ministry of Human
Resource Development | Chairperson |
| ii. Financial Advisor, MHRD | Member |
| iii. Principal Advisor/Advisor, Planning
Commission | Member |

- iv. Director, NCERT Member
- v. Director, NUEPA Member
- vi. Managing Director, FCI Member
- vii. Representatives [not below the rank of Joint Secretaries to be nominated by concerned Secretaries] of the Ministries/Departments of :
1. Health and Family Welfare
 2. Food and Public Distribution
 3. Women and Child Development
 4. Rural Development
 5. Urban Development and Poverty Alleviation
 6. Youth Affairs and Sports
- viii. Thirteen Members to be nominated by Chairperson, namely:

Two experts in the area of Nutrition

1. Director, National Institute of Nutrition, Hyderabad
2. Director, Nutrition Foundation of India, New Delhi

Four persons of whom at least two shall be women with significant contribution/achievement in the area of Nutrition, Child Welfare Community/Women's Mobilisation, School Education, Child Health, School Mid Day Meal

3. Dr. Rama Baru, Centre for Social Medicine and Community Health, JNU, New Delhi
4. Dr. T. Sundaraman, Executive Director, National Health Systems Resource Centre, NRHM, New Delhi
5. Dr. Venkatesh Athreya, MS Swaminathan Foundation, Chennai
6. Prof. S. Anandlakshmi, (Retd.) Director Lady Irwin College, A-204 Mansarovar, 19, 3rd C-ward Road, Balmiki Nagar, Chennai-600041.

Representatives of five States (one from each region)

- Principal Secretary/Secretary of the State Nodal Department for the Mid Day Meal Schemes of the States of :
7. Uttar Pradesh
 8. West Bengal
 9. Kerala
 10. Mizoram
 11. Maharashtra

Two Primary School Teachers with a distinguished record of service (of whom at least one shall be a woman)

12. Smt. Sunila Masih, Science Teacher, Mitra GHS Kanya School, Suhagpur, Hoshangabad, 461771 Madhya Pradesh

13. Smt. A. Hemawathi, Head Mistress Government Girls' Middle School Veerarveli, 2-A Bahadur Saheb Street, Puducherry-605001

The term of the above members will be of two years or termination of their successors, whichever is later.

- ix. Joint Secretary in-charge of Mid Day Meal Scheme in the Department of School Education & Literacy. Member-Secretary

3. NSMC will meet at least once every six months.

4. Secretariat support to NSMC will be provided by the Elementary Education Bureau-I of the Department of School Education & Literacy.

K. RAVIRAMACHANDRAN, Deputy Secretary

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT
DIRECTORATE GENERAL OF EMPLOYMENT & TRAINING

New Delhi, the 24th October 2007

No. DGET-19 (5)/2006-CD—In partial modification of Ministry of Labour & Employment (Directorate General of Employment & Training), New Delhi Resolution No. TR/EP-24/56 dated 21st/24th August 1956 (amended upto 23rd October 2007) the composition of National Council for Vocational Training (para-5) shall hereinafter stand amended as under w.e.f. 24.10.2007:

Composition of the Council: The Council shall be constituted by the Government of India and shall consist of the following members:

- | | | |
|-------|--|---------------|
| (a) | Union Minister for Labour & Employment
Minister of State for Labour & Employment (Independent Charge) | Chairman |
| (b) | Secretary to the Govt. of India,
M/o Labour & Employment | Vice Chairman |
| (c) | Director General of Employment & Training/Joint Secretary,
M/o Labour & Employment | Member |
| (d) | Financial Advisor, Ministry of Labour & Employment and one representative each of the following : | Member |
| (i) | Department of Secondary & Higher Education,
Ministry of Human Resource Development | |
| (ii) | Department of Information Technology, Ministry of Communication & Information Technology | |
| (iii) | Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises | |
| (iv) | Ministry of Overseas Indian Affairs | |

The representatives shall, as far as possible, be technical officers.

- (e) One representative each from the State Government/ Union Territory Administrations (State Directors Dealing with Craftsmen Training Scheme—Andhra Pradesh, Assam, Gujarat, Himachal Pradesh, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Kerala, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, West Bengal, Jammu & Kashmir, Orissa, Jharkhand and Goa.
- (f) Three representatives of Employers' Organizations to be nominated by the Government of India.
- (g) Three representatives of Workers Organization to be nominated by the Government of India.
- (h) Five representatives of Professional and Learned Bodies to be nominated by Government of India.

- (i) One representative of the All India Council for Technical Education to be nominated by the Government of India.
- (j) Four Experts to be nominated by the Government of India.
- (k) One representative each of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes to be nominated by the Government of India.
- (l) One representative from the All India Women's Organization to be nominated by the Government of India.
- (m) Deputy Director General (Apprenticeship Training), DGE&T, M/o Labour & Employment.
- (n) Deputy Director General (Training), DGE&T, M/o Labour & Employment. —Member Secretary

SHARDA PRASAD
Director General/Joint Secretary

No. DGE&T-19(5)/2006-CD—In pursuance of Sub-Paragraphs (f) to (l) of Paragraph 5 of the Government of India Resolution amending partially the Resolution No. TR/EP-24/56 dated 21st/24th August 1956, published in the Gazette of India Part-I, Section-I and in the supersession of Notification No. DGE&T 19(5)/2006-CD dated 4th January 2007 of the Government of India, Ministry of Labour & Employment (Directorate General of Employment & Training), the following persons have been nominated by the Central Government in consultation with the authorities concerned to represent the various organization, bodies etc. on the National Council for Vocational Training for a period of three years from 24.10.2007 :—

Sl. No.	Name of the Member	Organization Representing
1	2	3
(1)	Representative of Employers Organization	
(i)	Ms. Shobha Mishra Deputy Director & Team Leader (Education & Health), FICCI Federation House Tansen Marg New Delhi-110001	Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI)
(ii)	Col. H. S. Sethi Director Plot No. 249F, Udyog Vihar Phase- IV, Sector-18 Gurgaon-122015 (Haryana)	Confederation of Indian Industry CII
(iii)	Sh. S. Chandrashekar Managing Director Bhoruka Power Corporation Ltd. Hitananda-II, 5th Floor 48, Lavelle Road Bangalore-560001	The Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHM)
(2)	Representative of Workers Organizations	
(i)	Sh. Sukhdev Prasad Mishra Organising Secretary (BMS) 2-Navin Market, Kanpur-208001	Bhartiya Mazdoor Sangh (BMS)

1	2	3
	(ii) Sh. Raghunath Pandey Organizing Secretary, INTUC & President, Tata Workers Union H-6-17, Flower Mill Road Sakchi Jamshedpur-831001	Indian National Trade Union Congress (INTUC)
	(iii) Sh. Dipankar Mukherjee, Ex-MP Secretary (CITU) BTR Bhawan 13 A, Rouse Avenue New Delhi-110002	Centre of Trade Unions (CITU)
(3)	Representatives of Professional & Learned Bodies	
	(i) Dr. M.R. Prasad Chief & Head (Research Coordination) IAMR, Plot No. 25, Sector A-7 Institutional Area, Narela, Delhi-110040	Institute of Applied Manpower Research
	(ii) Prof. R. G. Choksey, Joint Director, PSS Central Institute of Vocational Education 131, Zone-II, M.P. Nagar, Bhopal-462011.	National Council of Education Research & Training (NCERT)
	(iii) Sri K.A.N. Prasad, Sr. Director (Trg.), NAC Campus, Cyberabad, Kondapur (Post) Hyderabad-500 032.	National Academy of Construction (NAC), Hyderabad
	(iv) Pro. Ranjit Singh, Director and Head, Division of Manufacturing Process and Automation Engineering, Netaji Subhash Institute of Technology Sector-3, Dwarka, New Delhi-110075	Netaji Subhash Institute of Technology
	(v) Dr. Sandhya Chintala Director-Education Initiative Nasscom, ITC Kakatiya Sheraton & Towers, Begumpet, Hyderabad-500016.	NASSCOM
	(vi) Dr. Rajnish Srivastava Adviser (Academic) AICTE, Indira Gandhi Sports Complex I.P. Estate, New Delhi-110002.	Representative of AICTE
(4)	Experts	
	(i) Fr. T. V. Methew Director Don Bosco Self Employment & Research Centre Howrah, Kolkata.	Representative of Don Bosco Voc. Trg. Institute, spread all over the country
	(ii) Sh. Prasad Harichandan Qrs. No. VI-C, 13/2, Unit-I, Bhubaneswar-751009 Orissa.	

1	2	3
(iii)	Sh. K. C. Rajesh, Pragathi Building, Soornalli Road, Kundapura, Udupi District, Karnataka.	
(iv)	Sh. Ramesh Mishra, 26/47, Birhana Road, Kanpur, (UP)-208001.	
	Representative of SC/ST	
(i)	Shri Sudhakar Badiger Post Abbihal, Taluka Athani, District Belgaum (Karnataka).	SC
(ii)	Mrs. Wangsukh Syien, Shillong, Meghalaya.	ST
	Representative Women Organization	
	Mrs. L. Trilotama, Imphal, Manipur.	

SHARDA PRASAD
Director General of Employment & Training/
Joint Secretary